

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का संसथान)
681 – 690, मार्केट यार्ड, गुलटेकड़ी
पुणे - 411037
फ़ोन : 020-24264587 फ़ैक्स : 20-24272587

कार को किराये पर लेने के लिए नियम एवं शर्ते

1. शाशकीय संस्थाओं, ट्रेवल एजेंसीज एवं अधिकृत व्यक्तियों के पास अपने स्वामित्व और अधिकार में संभागीय परिवहन विभाग दवरा वर्ष 2012 या उसके बाद की पंजीकृत सफ़ेद रंग की वाणिज्यक स्विफ्ट / स्विफ्ट डिजायर / इंडिगो / आई - 10 / आई - 20 या इसके समक्ष कार अच्छी हालत में और संतोषजनक सेवा देने योग्य होनी चाहिए ।
2. निविदा प्रपत्र तथा नियम एवं शर्ते कार्यालय दिवस/समय में पुणे स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से रु 354/- (18% GST सहित) का भुगतान कर प्राप्त किये जा सकते है और एन. एस. सी. कि वेबसाइट www.indiaseeds.com से भी डाउनलोड किया जा सकता है। डाउनलोड किये गए टेंडर फार्म के साथ रु.354/- का डिमांड ड्राफ्ट जो नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड, पुणे के नाम जारी हो और पेएबल at पुणे हो।
2. वाहन को प्रातः 9.30 बजे तक क्षेत्रीय कार्यालय पुणे में उपस्थित होना होगा तथा वाहन का माइलेज मीटर ओपनिंग एवं क्लोजिंग मीटर क्षेत्रीय कार्यालय पुणे से आरम्भ होकर क्षेत्रीय कार्यालय पुणे में ही समाप्त होगा। वाहन उपयोग के दौरान रोजाना लोग-बुक बनानी होगी जिसे भुक्तान के समय मासिक बिल के साथ प्रस्तुत करना होगा।
3. पुणे से बहार जाने पर वाहन चालक को रात्रि 8.00 बजे के बाद ठहराव पर रु. 150.00 मात्र प्रति ठहराव दिया जायेगा। लोकल में 8.00 बजे के बाद वहाँ प्रयोग होने पर रु. 20.00 प्रति घंटा अतिरिक्त देय होगा (अधिकतम रु. 100.00)। कार्यालय के कार्य के दौरान किसी और कार्य को करने की अनुमति नहीं होगी तथा कार्य के दौरान वाहन को हर समय उपलब्ध / उपस्थित रखना होगा।
4. जरूरत के मुताबिक दिए गए समय पर वहाँ उपलब्ध करना होगा। वाहन को चलाये जाने की अवधि में यदि वाहन के किसी कारण से दुर्घटना, नुकसान या क्षतिग्रस्त आदि होने की स्थिति में निगम जिम्मेवार नहीं होगा। वाहन की सुरक्षा, रख-रखाव की पूर्ण जिम्मेदारी वाहन उपलब्ध करने वाली संस्था/व्यक्ति की ही होगी।
5. वाहन चलने वाले चालक के वैध परिवहन (कमर्शियल) ड्राइविंग लाइसेंस की छाया प्रति हमारे कार्यालय में जमा करनी होगी एवं इसे निविदा के साथ प्रस्तुत करना भी आवश्यक होगा।
6. निविदादाता को निविदा के साथ धरोहर राशि के रूप में रु. 10,000.00 (रु. दस हज़ार मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट (नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड, पुणे) के पक्ष में देय, जमा करना होगा। यह राशि जब तक संस्था / व्यक्ति का कांट्रैक्ट रहेगा, जमा रहेगा तथा किये गए कॉन्ट्रैक्ट की सफलतापूर्वक समाप्ति पर ही रु. 10,000.00 बिना ब्याज के वापसी किया जायेगा। टेंडर स्वीकृत होने के पश्चात निविदादाता द्वारा उपरोक्त

शर्तों के अनुरूप कार्य न करने के कारण यदि कार्य आदेश निरस्त करना पड़ता है तो धरोहर राशि के रूप में जमा धनराशि कको जब्त कर ली जाएगी।

7. यदि निविदादाता वाहन की मांग पर वाहन को समय पर या सही हालत में उपलब्ध नहीं करता है तो रु. 1000.00 प्रतिदिन के हिसाब से उसके मासिक बिल में से काट लिया जायेगा और यदि उस दिन वाहन की आवश्यकता पड़ी तो उस दिन वाहन बाहर से ले लिया जायेगा और इसके वास्तविक बिल की वसूली निविदादाता से कर ली जाएगी।

8. निविदादाता द्वारा दी गई दरें एक वर्ष (01.04.2018 से 31.03.2019) तक मान्य होंगी। यह अवधि दोनों पक्षों के राजीनामे से आगे बढ़ाई जा सकती है।

9. मासिक बिल का भुक्तान अगले माह की सात तारिक के बाद निविदादाता द्वारा बिल सत्यापित लोग-बुक सहित प्रस्तुत करने पर किया जायेगा। माह के मध्य में कोई भुक्तान या अग्रिम देय नहीं होगा। भुक्तान में से नियमानुसार आयकर काटा जायेगा व अन्य जो भी सरकारी कर समय समय पर लागू होंगे वह भी संस्था / व्यक्ति द्वारा देय होगा।

10. निर्धारित समय (दिनांक 26.03.2018 को अपरान्ह 1.30 बजे तक) में प्राप्त निविदाओं को उसी दिन 2.30 बजे तक निविदादाताओं या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष (जो भी उपस्थित हो) के सामने खोला जायेगा।

11. क्षेत्रीय प्रबंधक, राष्ट्रीय बीन निगम लिमिटेड, पुणे को यह अधिकार होगा की वह बिना किसी कारण बताये किसी भी या समस्त निविदाओं को रद्द कर सकते हैं तथा न्यूनतम निविदा स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होंगे।

12. निगम को यह अधिकार होगा की वह इस कॉन्ट्रैक्ट को एक माह का नोटिस देकर निरस्त कर सकता है।

13. वाहन को प्रतिदिन प्रातः 9.30 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक उपलब्ध करना होगा।

14. वाहन को आवश्यकतानुसार शाशकीय अवकाश के दिनों में भी बुलाया जा सकता है।

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का संसथान)
681 – 690, मार्केट यार्ड, गुलटेकड़ी
पुणे - 411037

फ़ोन : 020-24264587 फ़ैक्स : 20-24272587

कार को किराये पर लेने के लिए निविदा
टेक्निकल बिड (Technical Bid)

1. पार्टी का नाम व पता
2. प्रोप्राइटर / पार्टनर का नाम
3. फर्म का रजिस्ट्रेशन न.
(रजिस्ट्रेशन की कॉपी संलग्न करें)
4. सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन न.
(रजिस्ट्रेशन की कॉपी संलग्न करें)
5. इनकम टैक्स पैन न.
(पैन की कॉपी संलग्न करें)

6. कार का विवरण / निर्माता

कार का निर्माता	रजिस्ट्रेशन न. (कॉपी संलग्न)	निर्माण वर्ष	कार का रंग
स्विफ्ट			
स्विफ्ट डिजायर			
इंडिगो			
आई 10 / आई 20			
या इनके समक्ष			

7. अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें

8. धरोहर राशि रु. 10,000.00 के डिमांड ड्राफ्ट संख्या दिनांक

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का संसथान)
681 – 690, मार्केट यार्ड, गुलटेकड़ी
पुणे - 411037
फ़ोन : 020-24264587 फ़ैक्स : 20-24272587
कार को किराये पर लेने के लिए निविदा
प्राइस बिड (Financial Bid)

कार का सम्पूर्ण विवरण	मासिक दर 3000 कि.मी. तक रु.	3000 कि.मी से अधिक कार चलाने कि दर प्रति कि.मी.	धरोहर राशि रु. 10,000.00 का विवरण
स्विफ्ट स्विफ्ट डिजायर इंडिगो आई 10 / आई 20 या इनके समक्ष			